

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 73
No. 97]	DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SRAVANA 5, 1937	[N.C.T.D. No. 73

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(महिला सशक्तिकरण सैल)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

पत्रांक एफ.60(59)/म.बा.वि.वि./स.नि.म.स.प्र./खंड.-IV/16902-917.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (दिल्ली अधिनियम 1994 की संख्या 8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग का निम्न अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित अधिसूचना पारित होने की तिथि से पुनर्गठन करती है :-

1. सुश्री स्वाती मालीवाल —अध्यक्ष
B-635, अवतिका, रोहिणी,
सेक्टर-1, नई दिल्ली-110085
2. सुश्री प्रोमिला गुप्ता —सदस्य
16-A, ओल्ड मार्केट,
तिमारपुर, दिल्ली-110054
3. सुश्री फ़राहीन मलिक —सदस्य
G-2, हमदर्द यूनिवर्सिटी कैम्पस,
हमदर्द नगर, नई दिल्ली

4. सुश्री सारिका चौधरी —सदस्य

रूम नं.-600, अखिल भारतीय महिला परिषद छात्रावास 6,
भगवानदास रोड़, मंडी हाउस, नई दिल्ली

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों तक दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अनुसार अपने पद पर कार्य करेंगे। यह अधिसूचना पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना संख्या 60(59)/म.बा.वि.वि./स.नि.म.स.प्र./खंड.-IV/22773-789 दिनांक 29.09.2014 के अतिरिक्त सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुधील सिंह, संयुक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(WOMEN EMPOWERMENT CELL)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2015

No.60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.-IV/16902-917.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Delhi Commission for Women for the National Capital Territory of Delhi consisting of the following persons with effect from the date of notification, namely:—

1. Ms. Swati Maliwal —Chairperson
B-635, Avantika, Rohini,
Sector-1, New Delhi-110085.
2. Ms. Promila Gupta —Member
16A, Old Market, Timarpur,
Delhi-110054.
3. Ms. Fraheen Malick —Member
G-2, Hamdard University Campus
Hamdard Nagar, New Delhi.
4. Ms. Sarika Chaudhary —Member
Room No.600, AIWC Hostel
6, Bhagwandas Road, Mandi House,
New Delhi.

The Chairperson and the Members of the Commission shall hold office for a period of three years from the date of notification, as provided under Section 4 of the Delhi Commission for Women Act, 1994.

This is in supersession of all previous notifications issued in this behalf except notification No. 60(59)/DWCD/ADWEC/Vol.- IV/ 22773-789 dated 29-09-2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital territory of Delhi,
SUSHIL SINGH, Jt. Director